

**अचल संपत्ति के लेनदेन से संबंधित सीसीएस (कंडक्ट) नियमावली, 1964 के नियम 18(2) के  
तहत पूर्व सूचना देने अथवा पूर्व अनुमति के लिए प्रपत्र**

FORM FOR GIVING PRIOR INTIMATION OR SEEKING PREVIOUS SANCTION UNDER RULE 18(2) OF  
THE CCS (CONDUCT) RULES, 1964 FOR TRANSACTION IN RESPECT OF IMMOVABLE PROPERTY

1. लोक सेवक का नाम :  
Name of the Govt. Servant
2. वेतनमान एवं वर्तमान वेतन :  
Scale of pay and present pay
3. आवेदन का प्रयोजन- लेनदेन की अनुमति/लेनदेन की पूर्व सूचना :  
Purpose of application-sanction for transaction/prior intimation  
of transaction
4. क्या संपत्ति का अर्जन किया जा रहा है अथवा निस्तारित किया जा रहा है :  
Whether property is being acquired, or disposal of property
5. संपत्ति अर्जन अथवा निस्तारण की संभावित तिथि :  
Probable date of acquisition or disposal of property
6. अर्जन/निस्तारण का प्रकार :  
Mode of acquisition/disposal
7. (a) अविस्थिति संबंधी पूरा विवरण जैसे नगरपालिका सं., :  
सड़क/गांव, तालुक, जिला एवं राज्य जहां स्थित है  
Full details about location viz. Municipal No.,  
Street/Village, Taluk, District and State in which situated
- (b) कृषि भूमि, सूखा अथवा सींचित भूमि के मामले में संपत्ति का विवरण :  
Description of property in case of cultivable land, dry or irrigated land
- (c) क्या पूर्ण स्वामित्व अथवा पट्टे पर है :  
Whether freehold or leasehold
- (d) संपत्ति में आवेदक का हित संपूर्ण है अथवा आंशिक है :  
(आंशिक हित के मामले में, आंशिकता का विवरण दें)  
Whether the applicant's interest in the property is in full or part  
(in case of partial interest, the extent of such interest must  
be indicated)
- (e) यदि लेनदेन केवल लोक सेवक के नाम पर नहीं है तो ऐसी स्थिति में :  
प्रत्येक सदस्य के स्वामित्व वाले हिस्से का पूरा विवरण  
In case the transaction is not exclusively in the name of the  
Govt. Servant, particulars of ownership and share of each member
8. संपत्ति की बिक्री/खरीद कीमत (उपहार के मामले में बाजार मूल्य) :  
Sale/purchase price of the property (Market Value in the case of gifts)
9. अर्जन के मामले में, वित्तीय स्रोत/संभावित वित्तीय स्रोत :  
In case of acquisition, source or sources from which  
financed/proposed to be financed
10. संपत्ति निस्तारण के मामले में, क्या उसके अर्जन की आवश्यक अनुमति :  
प्राप्त की गई थी/सूचना दी गई थी (अनुमति/पावती संलग्न किया जाए)  
In the case of disposal of property, was requisite sanction/intimation  
obtained/given for its acquisition? (A copy of the sanction/acknowledgement  
should be attached)
11. (a) उस पार्टी का नाम एवं पता जिसके साथ प्रस्तावित लेनदेन किया जाना है :  
Name and address of the party with whom transaction is  
proposed to be made
- (b) क्या पार्टी आवेदक का रिश्तेदार है? यदि हां तो रिश्ता बताएं :  
Is the party related to the applicant? If so, state the relationship

(c) क्या किसी भी वक्त आवेदक द्वारा लोक सेवक की हैसियत से पार्टी के साथ :  
किसी भी प्रकार का लेनदेन हुआ था अथवा क्या भविष्य में उसके साथ ऐसी  
लेनदेन की संभावना है?

Did the applicant have any dealings with the party in his official  
capacity at any time or is the applicant likely to have any  
dealings with him in the near future?

(e) लेनदेन की व्यवस्था कैसे की गई? (क्या किसी सांविधिक निकाय या निजी :  
एजेंसी के द्वारा; विज्ञापन के द्वारा या मित्रों एवं रिश्तेदारों के द्वारा।  
पूरा विवरण दें।)

How was the transaction arranged? (Whether through any statutory body  
or private agency; through advertisement or through friends and relatives.  
Full particulars to be given)

1. उपहार द्वारा अर्जन के मामले में, क्या सीसीएस (कंडक्ट) नियमावली, 1964 के नियम 13 :  
के अधीन अनुमति की आवश्यकता है।

In the case of acquisition by gifts, whether sanction is also required under  
Rule 13 of the CCS (conduct) Rules, 1964

13. अन्य संदर्भित तथ्य जो आवेदक उल्लेख करना चाहें

Any other relevant fact which the applicant may like to mention

### घोषणा

#### Declaration

मैं, ..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपर्युक्त  
सूचनाएं सत्य हैं। मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मुझे उस पार्टी से/को जिसका नाम क्रम सं. 11 में उल्लिखित है, उपर्युक्त वर्णित संपत्ति  
अर्जन/निस्तारण करने की अनुमति प्रदान की जाए।

I, ..... hereby declare that the particulars given above are true. I request that I  
may be given permission to acquire/dispose off property as described above from/to the party whose name is mentioned in  
Item 11 above.

### अथवा OR

मैं, ..... एतद्वारा उपर्युक्त विवरणानुसार संपत्ति के प्रस्तावित अर्जन/निस्तारण की सूचना  
देता हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि दिए गए विवरण सत्य हैं।

I, ..... hereby intimate the proposed acquisition/disposal of property by me as detailed  
above. I declare that the particulars given are true.

स्थान Station .....

हस्ताक्षर Signature .....

तिथि Date .....

पदनाम Designation .....

नोट 1: उपर्युक्त प्रपत्र में विभिन्न हिस्सों का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाए।

In the above form different portions may be used according to requirement.

नोट 2: जहां पूर्व अनुमति मांगी जा रही है, वहां लेनदेन की संभावित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

Where previous sanctions are asked for, the application should be submitted at least 30 days before the proposed  
date of transaction.